



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16—जुलाई 22, 2005 (आषाढ़ 25, 1927)

No. 29]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 16—JULY 22, 2005 (ASADHA 25, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 817	भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ *
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	669	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	7	भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	795
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1061	भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	333
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1913
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए	197
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

* आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

(817)

CONTENTS

	Page		Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	817	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	669	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	7	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	795
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1061	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	333
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1913
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	197
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Statement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions Issued by the Ministries of Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 2005

संकल्प

शुद्धिपत्र/अनुशेष

सं. 8(4)/2004-हिन्दी--“संसदीय हिन्दी पुस्तक पुरस्कार योजना” के संबंध में इस मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प दिनांक 1 सितम्बर, 2004 में निम्नलिखित आशोधन तथा परिवर्धन किया जाता है:--

आशोधन

संकल्प के पैरा 6(1) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है:--

6. मूल्यांकन समिति

(1) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त पुस्तकों/पाण्डुलिपियों को पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कारों की सिफारिश करने के लिए 5 सदस्यों की एक मूल्यांकन समिति होगी। मंत्रालय के हिन्दी कार्य से संबंधित उप सचिव समिति के पदेन-सचिव होंगे:--

1. श्री उमाकान्त मिश्रा,
पूर्व सांसद (मिर्जापुर)
इमरती रोड, गांव डाकखाना ब्यारठधा
मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)

अध्यक्ष

2. प्रो. नित्यानन्द तिवारी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर,
सी-1, न्यू मुल्तान नगर,
रोहतक रोड, नई दिल्ली

सदस्य

3. डॉ. आर. के. गौतम,
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,
हिन्दी विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

सदस्य

4. डॉ. रमेशचन्द्र मिश्र,
रीडर (सेवानिवृत्त)
ए-1/341, जनकपुरी,
नई दिल्ली-58

सदस्य

5. श्री बी. एम. एस. नेगी,
निदेशक (नीति)
राजभाषा विभाग,
लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली

सदस्य

परिवर्धन

सामान्य निबंधन और शर्तों के संबंध में संकल्प के पैरा (8) में क्र. सं. 17 के पश्चात निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाती है:--

(18) पुस्तक/पाण्डुलिपि में किसी व्यक्ति/दल/ग्रुप विशेष पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी/अभ्युक्ति नहीं की गई होनी चाहिए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

विवेक अग्निहोत्री

सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2005

संकल्प

सं. 11014/3/2004-हिन्दी-II--भारत सरकार ने, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के दिनांक मई 17, 2004 के संकल्प संख्या 11014/3/98-हिन्दी-II को अधिकांश करते हुए एतद्वारा, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का तत्काल प्रभाव से पुनर्गठन करने का निर्णय किया है। इस समिति का गठन, इसके कार्य और इसका कार्य-काल आदि निम्नानुसार होंगे:--

1. गठन

सरकारी सदस्य

- | | |
|---|---------|
| 1. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. सचिव (कार्मिक) | सदस्य |
| 3. सचिव, राजभाषा विभाग | सदस्य |
| 4. स्थापना अधिकारी और अपर सचिव | सदस्य |
| 5. अपर सचिव (सेवाएं एवं सतर्कता) | सदस्य |
| 6. अपर सचिव (प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत) | सदस्य |

7. अपर सचिव (पेंशन)	सदस्य	23. डॉ. सूर्य प्रसाद दीक्षित,	सदस्य
8. संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण)	सदस्य	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद,	
9. संयुक्त सचिव (स्थापना)	सदस्य	12, सम्मेलन मार्ग,	
10. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य	इलाहाबाद-2110013।	
11. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी	सदस्य	24. श्री बालकवि बैरागी,	सदस्य
12. निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली	सदस्य	गौँव व डा.-मनासा,	
13. अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली	सदस्य	जिला-नीमच,	
14. निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य	मध्य प्रदेश।	
15. संयुक्त सचिव (प्रशासनिक अधिकरण और प्रशासन)	सदस्य सचिव	25. श्री मधुकर द्विवेदी,	सदस्य
		42/19, दक्षिण तात्यां टोपे नगर,	
		भोपाल, मध्य प्रदेश।	
		26. डॉ. आलोक चंसोरिया,	सदस्य
		बंगला नं. 25,	
		जबलपुर कैंट,	
		मध्य प्रदेश।	
गैर सरकारी सदस्य		27. श्रीमती पद्मा सचदेव	सदस्य
(क) संसद सदस्य		बी-242, चितरंजन पार्क,	
16. श्री सचिन पायलट	सदस्य	नई दिल्ली-110019।	
संसद सदस्य (लोक सभा),		28. श्री चन्द्रधर त्रिपाठी,	सदस्य
3, त्यागराज मार्ग,		ए-2/77, सफदरजंग एन्कलेव,	
नई दिल्ली।		नई दिल्ली-110 029।	
17. श्री सुरेश चन्देल,	सदस्य	29. डॉ टी. एस. उषाराणी,	सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा),		430, आठवाँ क्रास,	
176, नॉर्थ एवेन्यू,		1 ब्लॉक, जयनगर, बैंगलोर-560011 (कर्नाटक)।	
नई दिल्ली।		30. श्री गिरीश काशीनाथ नाईक,	सदस्य
18. श्रीमती चन्द्र कला पांडे,	सदस्य	9, पुष्पक लिंकिंग रोड (विस्तार),	
संसद सदस्य (राज्य सभा),		सांताक्रूज (प) मुम्बई-400054।	
11, हरिश्चन्द्र माधुर लेन,			
नई दिल्ली।			
19. श्री जयन्ती लाल बारोट,	सदस्य	2. कार्य	
संसद सदस्य (राज्य सभा),		यह समिति केन्द्रीय हिन्दी समिति और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय	
16-डी, फीरोज़शाह रोड		पर निर्धारित नीतियों और मार्ग-निर्देशों के अनुसार, कार्मिक, लोक शिकायत	
नई दिल्ली।		तथा पेंशन मंत्रालय के सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रणामी प्रयोग से	
20. श्री अनिल बसु,	सदस्य	संबंधित मामलों में सलाह देगी।	
संसद सदस्य (लोक सभा),		3. कार्यकाल	
26, नॉर्थ एवेन्यू,		समिति का कार्यकाल सामान्यतः इसके गठन की तारीख से निम्नलिखित	
नई दिल्ली-110001।		बातों के अधीन 3 वर्ष का होगा:--	
21. श्री मोहम्मद सलीम,	सदस्य	(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने	
संसद सदस्य (लोक सभा),		पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे;	
104, बंग भवन,		(ख) जो संसद सदस्य, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य होने की	
3, हेली रोड,		हैसियत से इस समिति के सदस्य हैं, वे संसदीय राजभाषा	
नई दिल्ली।		समिति के सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे;	
(ख) अन्य		(ग) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक	
22. डॉ. महेश चंद्र गुप्त,	सदस्य	समिति के सदस्य रहेंगे; तथा	
मकान नं. 316,		(घ) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति	
सेक्टर-ए, पॉकेट-सी,		की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण कोई स्थान खाली	
वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070।		हुआ, तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य समिति के कार्यकाल	
		की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।	

4. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

5. यात्रा तथा अन्य भत्ते

समिति के गैर सरकारी सदस्यों को इसकी बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर एवं नियमों के अनुसार यात्रा-भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाए :

राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, योजना आयोग, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, लेखापरीक्षा निदेशक, केन्द्रीय राजस्व, समिति के सभी सदस्य और भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर. रामानुजम
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 24 मई 2005

सं. एफ. 9-48/2004-यू.3--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 की 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर दत्ता मेघे मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नागपुर, महाराष्ट्र में शामिल (I) जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, वर्धा, महाराष्ट्र ((I) शरदपवार डैन्टल कालेज वर्धा, महाराष्ट्र को तत्काल प्रभाव से सम विश्वविद्यालय घोषित करती है। बशर्ते कि संस्थान निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों:--

(I) संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सम्बद्ध सांविधिक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी सम विश्वविद्यालयों पर लागू होने वाले निशानिर्देशों का अनुपालन करेगा।

(II) संगम ज्ञापन के पैरा 15 (ख) तथा नियमावली में निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे:--

“कुलपति पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यभार संभालेंगे। वह पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे”।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2005

संकल्प

सं. 2-4/2005-पी.एन. I--जबकि सरकार ने इस विभाग के संकल्प सं. 2-24/93-पी.एन.-I दिनांक 6 जुलाई 2004 के जरिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है,

और जबकि विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा पद्धतियों के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने हेतु केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के लिए सदस्य नामित करने का निर्णय लिया गया है,

एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य (नामित सदस्यों की श्रेणी के तहत) के रूप में नामित किया जाता है:--

1. श्री जावेदी आब्दी,
नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन एण्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपुल
ए-77, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-II
नई दिल्ली-110049
2. डॉ. मिथु अलुर
संस्थापक अध्यक्ष,
नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर इनक्लूजिव
द स्पेसिटिक सोसायटी ऑफ इण्डिया
के.सी. मार्ग, बांद्रा रिकलेमेशन
मुम्बई-400050

दिनांक 6 जुलाई 2004 के उपर्युक्त संकल्प के संलग्नक को 'नामित सदस्यों' की श्रेणी के तहत उपर्युक्त नामों के शामिल किए जाने की सीमा तक संशोधित माना जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, विश्वविद्यालयों, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सभी संस्थाओं/संगठनों आदि को सूचनार्थ भेजी जाए।

च. बालकृष्ण
संयुक्त सचिव

संसकृति मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 2005
संकल्प

सं. एफ. 9-2/2003-एम. I--इस मंत्रालय के दिनांक 19.05.2003 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन के अनुसार, इलाहाबाद संग्रहालय सोसाइटी के नियमों एवं विनियमों के नियम 4(क) (i) तथा नियम 9 (क) के तहत राष्ट्रपति, ए पी एस विश्वविद्यालय, रीवा के भूतपूर्व कुलपति डॉ. राधाकांत वर्मा को डॉ. जी. सी. पाण्डेय के स्थान पर तत्काल प्रभाव से इलाहाबाद संग्रहालय सोसाइटी तथा इलाहाबाद संग्रहालय सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष पद पर सहर्ष मनोनीत करते हैं। इस सोसाइटी के अन्य सदस्य यथावत् रहेंगे, जैसाकि इस मंत्रालय के दिनांक 19.05.2003 के उपरोक्त संकल्प सं. एफ. 9-2/2003-एम I के जरिए जारी किया जा चुका है। उक्त संकल्प की अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

आदेश

यह आदेश भी दिया जाता है कि संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को प्रेषित की जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ए. के. सिंह
निदेशक

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 27th June 2005

RESOLUTION
CORRIGENDA/ADDENDUM

No. F.8(4)/2004-Hindi.—The following modification and addition are made in this Ministry's Resolution of even number dated 1st September, 2004 regarding "Parliamentary Hindi Book Prize Scheme" :—

MODIFICATION

Para 6(1) of the Resolution is substituted as under :—

6. EVALUATION COMMITTEE

(1) There shall be an Evaluation Committee of five members to recommend the prizes to be awarded on book/manuscript received under this scheme. Deputy Secretary connected with Hindi work of the Ministry shall be Ex-officio Secretary of the Committee. The following will be the members of the Evaluation Committee :—

Chairman

1. Sh. Umakant Mishra,
Ex-M.P. (Mirzapur)
Imarti Road,
Village and Post Office Barungha,
Mirzapur (Uttar Pradesh).

Members

2. Prof. Nityanand Tiwari,
Retired Professor
C-1, New Multan Nagar,
Rohtak Road,
New Delhi.
3. Dr. R. K. Gautam,
Professor and Head of Deptt.
Hindi Department,
Delhi University,
Delhi.
4. Dr. Ramesh Chander Mishra,
Reader (Retired)
A-1/341, Janak Puri,
New Delhi-58.
5. Sh. B.M.S. Negi,
Director (Policy),
Deptt. of Official Language,
Lok Nayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi.

ADDITION

In para (8) of the Resolution regarding general terms and conditions, the following condition is added after S. No. 17 :—

(18) There should be no adverse comments/remarks on any particular person/party/group in the Book/Manuscript.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be Communicated to all State Governments and all Ministries/Departments of the Government of India.

Ordered further that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. K. AGNIHOTRI, Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
& PENSIONS

(DEPTT. OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 29th June 2005

RESOLUTION

No. 11014/3/2004-Hindi-II.—In supersession of the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Resolution No. 11014/3/98-Hindi-II dated May 17, 2000, the Government of India, hereby, reconstitutes the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions with immediate effect. The Composition, Functions, Tenure etc. of the Samiti will be as under :—

1. Composition

Official Members

Chairperson

1. Minister of State for Personnel,
Public Grievances and Pension.

Members

2. Secretary (Personnel).
3. Secretary, Department of Official Language.
4. Establishment Officer and Additional Secretary.
5. Additional Secretary (Services and Vigilance).
6. Additional Secretary (Administrative Reforms and Public Grievances).
7. Additional Secretary (Pension).
8. Joint Secretary (Training).
9. Joint Secretary (Establishment).
10. Joint Secretary, Department of Official Language,
Ministry of Home Affairs.
11. Director, Lal Bahadur Shastri National Academy
of Administration, Mussoorie.
12. Director, Central Bureau of Investigation,
New Delhi.
13. Chairman, Staff Selection Commission,
New Delhi.
14. Director, Institute of Secretariat Training &
Management, New Delhi.

Member Secretary

15. Joint Secretary (Administrative Tribunal & Administration)

NON OFFICIAL MEMBERS

(a) Members of Parliament

Members

16. Sh. Sachin Pilot
Member of Parliament (Lok Sabha),
3, Tayag Raj Marg,
New Delhi.
17. Sh. Suresh Chandel
Member of Parliament (Lok Sabha),
176, North Avenue,
New Delhi.
18. Smt. Chandra Kala Pandey
Member of Parliament (Rajya Sabha),
11, Harishchandra Mathur Lane,
New Delhi.
19. Sh. Jayanti Lal Barot
Member of Parliament (Rajya Sabha),
16-D, Ferozshah Road,
New Delhi.
20. Sh. Anil Basu
Member of Parliament (Lok Sabha),
26, North Avenue,
New Delhi-110001.
21. Sh. Mohammad Salim
Member of Parliament (Lok Sabha),
104, Bang Bhavan,
3, Halley Road,
New Delhi.

(b) Others

Members

22. Dr. Mahesh Chandra Gupta
House No. 316,
Sector-A, Pocket-C,
Vasant Kunj,
New Delhi-110070.
23. Dr. Surya Prasad Dikshit
Hindi Sahitya Sammelan,
Allahabad,
12, Sammelan Marg,
Allahabad-2110013.
24. Sh. Balkavi Bairagi
Village and Post-Manasa,
District—Neemuch,
Madhya Pradesh.
25. Sh. Madhukar Dwivedi
42/19, South Tanta Tope Nagar,
Bhopal,
Madhya Pradesh.
26. Dr. Alok Chansoriya
Bungalow No. 25,
Jabalpur Cantt.,
Madhya Pradesh.

27. Smt. Padma Sachdev
B-242, Chitranjan Park,
New Delhi-110019.
28. Sh. Chandradhar Tripathi
A-2/77, Safdarjung Enclave,
New Delhi-110029.
29. Dr. T. S. Usharani,
430, 8th Cross,
I-Block, Jayanagar,
Bangalore-560011 (Karnataka).
30. Sh. Girish Kashinath Nayak
9, Pushpak Linking Road (Extn.),
Santacruz (W),
Mumbai-400054.

2. FUNCTIONS

The Samiti will advise on the matters relating to progressive use of Hindi in official work of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions in accordance with the policies laid down by the Kendriya Hindi Samiti and the guidelines issued by the Department of Official Language in this regard from time to time.

3. TENURE

The tenure of the Samiti will ordinarily be three years from the date of its constitution provided that :—

- (a) the Members of the Parliament who are members of the Samiti shall cease to be the members of the Samiti as soon as they cease to be the Members of the Parliament;
- (b) the Members of the Parliament who are the members of the Samiti by virtue of their being members of the Committee of the Parliament on Official Language shall cease to be the Members of the Samiti as soon as they cease to be the Members of the Committee of the Parliament on Official Language;
- (c) ex-officio members of the Samiti shall continue to be the members of the Samiti as long as they hold the office by virtue of which they are the members of the Samiti; and
- (d) if any vacancy arises in the Samiti owing to death of a member or owing to tendering of resignation by a member, the member so appointed against that vacancy shall hold office for the residual term of the Samiti.

4. GENERAL

The Headquarter of the Samiti will be at New Delhi.

5. TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES

The Non-Official Members of the Samiti will be paid travelling and daily allowances for attending its meetings, as per the prescribed rates and rules of the Govt. of India as amended from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the following :—

President's Secretariat, Prime-Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Committee of the Parliament on Official Language, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit, Central Revenue, All members of the Samiti and All Ministries and Departments of the Govt. of India.

Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. RAMANUJAM, Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER
EDUCATION)

New Delhi, the 24th May 2005

No. F. 9-48/2004-U.3.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declare the Datta Meghe Institute of Medical Sciences, Nagpur, Maharashtra comprising of (i) Jawaharlal Nehru Medical College, Wardha, Maharashtra (ii) Sharad Pawar Dental College, Wardha, Maharashtra as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect subject to the following conditions :—

- (i) the Institute will adhere to the guidelines/instructions issued by UGC and other concerned statutory bodies from time to time as applicable to the Deemed Universities.
- (ii) Para 15(b) of MOA and Rules shall be amended, as under :—
"The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years. He shall not be eligible for re-appointments".

SUNIL KUMAR, Jt. Secy.

New Delhi, the 7th July 2005

RESOLUTION

No. 2-4/2005-PN. I.—Whereas the Government has reconstituted the Central Advisory Board of Education (CABE) vide this Department's Resolution No. 2-24/93-PN. I dated 6th July, 2004.

And whereas it has been decided to nominate Members to represent the area of Inclusive Education Practices for disabled children on the Central Advisory Board of Education,

The following persons are hereby nominated as members (under the category of Nominated members) of the Central Advisory Board of Education :—

1. Shri Javed Abidi
National Centre for Promotion and Employment for Disabled People,
A-77 South Extension Part-II,
New Delhi-110 049
2. Dr. Mithu Alur,
Founder Chairperson,
National Resource Centre for Inclusion,
The Spastic Society of India,
K. C. Marg, Bandra Reclamation,
Mumbai-400 050

The Annexure to the aforesaid Resolution dated 6th July, 2004 will stand modified to the extent of incorporating the above names under the category 'Nominated Members'.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Also ordered that a copy of the Resolution be forwarded to all the Ministries/Departments of the Government of India, all State Governments/Union Territories Administration, Universities, Institutions/Organisations of the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development etc. for information.

C. BALAKRISHNAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 21st June 2005

RESOLUTION

No. F. 9-2/2003-M.I.—In partial modification of this Ministry's resolution of even No. dated 19.05.2003, the President under Rule 4(a) (i) and Rule 9(a) of Rules and Regulations of the Allahabad Museum Society is pleased to nominate Dr. Radha Kant Varma, former Vice Chancellor of APS University, Rewa as Chairman of the Allahabad Museum Society and Executive Committee of the Allahabad Museum Society in place of Dr. G. C. Pandey with immediate effect. Other members of the Society will remain same as issued vide this Ministry's above mentioned resolution No. F. 9-2/2003. M.I. dated 19.05.2003. Other terms and conditions of the said resolution will remain unaltered.

It is also ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India and to all State Governments and Union Territories.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. K. SINGH, Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005